

परिशिष्ट-1  
निःशुल्क

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत ..... जिला .....
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद् .....  
जिला .....

विषय:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता / पति का नाम .....

3. जाति वर्ग  एससी  एसटी  ओबीसी  सामान्य  अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि

5. आवेदन के समय आयु

6. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता .....

7. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता .....

8. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो ता) .....

9. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्र.	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

10. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है .....

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण-पोषण हेतु कोई राशि, अनाज / अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हां तो कितनी ओर किस रूप में .....

.....

12. वर्तमान में जीविका का साधन / वार्षिक आय .....

13. आवेदक का बचत खाता

आवेदक / खाताधारक का नाम	बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

॥ घोषणा पत्र ॥

मैं कुमारी/श्री/श्रीमती ..... पिता/पति.....

निवासी ..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेशन बद कर मैंने जो राशि पेशन के रूप में प्राप्त की है, वह मुझसे शासन द्वारा वसूली की जा सकती है।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

आवेदक के हस्ताक्षर

// सत्यापन //

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर परिषद

जिला..... म.प्र.

क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है, कि कुमारी/श्री/श्रीमती .....  
पिता/पति ..... निवासी ग्राम/नगर .....  
तहसील/विकासखण्ड ..... जिला..... द्वारा  
जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद .....  
जिला ..... को प्रस्तुत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त  
पेंशन योजना के आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की  
अनुशंसा की जाती है :—

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के  
मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण पेंशन स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के  
मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की  
जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर) :—

1.

2.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर  
जनपद पंचायत/नगर निगम/  
नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा अधिकृत  
अधिकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत  
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का ——————  
नाम एवं पता ——————  
—————

1. आवेदक का नाम एवं पता ——————  
—————

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय  
में आवेदन प्राप्ति का दिनांक ——————

3. सेवा का नाम जिसके लिये  
आवेदन दिया गया है ——————

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा  
प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु  
आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं ——————  
—————

4. निश्चित की गई समय-सीमा  
की आखिरी तारीख ——————

स्थान.....  
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित<sup>1</sup>  
आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।